



AAKAR PUBLIC SCHOOL

Summer Holiday Assignment (2022-2023)

Class – V



S.no.	Subject	ACTIVITY
1.	English	<ol style="list-style-type: none">1 .Read an article from magazine/newspapers and find out nouns, make a chart of common noun, proper noun and collective noun on A4 size sheet .2 .Read any story of your choice and learn one story and write in a creative way on A4 size sheet .3 .Write one page daily for atleast 45 days for improving handwriting in a separate notebook of 50 pages .4 .Converse in English with your family members.
2.	Hindi	<ol style="list-style-type: none">1 .कहानी लिखिए निम्नालिखित शब्दों का प्रयोग करो । (कम से कम 100 शब्द) आम, बगीचा, फूल, सुंदर, झूला, मोहन, तालाब, शादी, माला2 .भारत के किन्हीं 10 राज्यों के नाम लिखकर उनकी राजधानी लिखिए तथा उनकी वेश – भूषा, खान- पान के चित्र भी लगाये। (चार्ट पेपर पर लिखना है)3 .अपनी प्रतिदिन की गतिविधी को डायरी में लिखो। (30 दिन)
3.	Maths	<ol style="list-style-type: none">1. Prepare a chart of different type of fractions. (using pulses or buttons)2 .Create a magazine titled “Fun in Maths”. Collect or write poems , stories , puzzles , crosswords , mazes related to Maths concept .3 .Clock model – In the clock use “Roman Numbers” from 1 to 12 to make the hours and also show the minutes .
4.	E.V.S	<ol style="list-style-type: none">1.Make a poster on ‘ Project Tiger ' program on A4 size sheet .2.Collect information on “National Parks” in India and write about it on A4 size sheet . Example – Kaziranga National Park ,Jim Corbett National Park.3. Make a model of wind mill .4. Read about the story of Kalahandi district in Odisha .
5.	Computer	<ol style="list-style-type: none">1.Prepare a chart showing various generations of computer and write their time period and technologies which were used .2.Prepare a sheet showing the process of the computers work . All work done inA4 size sheet.
6.	Life Skill	<ol style="list-style-type: none">1 . Inculcate healthy habits - I.e. getting early in the morning , brushing teeth twice a day , washing hands , drinking lots of water and eating lots of fruits .2 . Support moral values - wishing everyone (Good Morning) , helping parents and grandparents in their regular work , saying prayer in the morning and night etc .

Note – kindly submit your assignment properly in a folder with a name tag on it .

